

HT MEDIA LIMITED

Regd. Office : Hindustan Times House 18-20, Kasturba Gandhi Marg

New Delhi - 110001

Tel.: 66561234 Fax: 66561270 www.hindustantimes.com

E-mail: corporatedept@hindustantimes.com CIN: L22121DL2002PLC117874

23rd August, 2022

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, Block G,

Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai- 400 051

Scrip Code: 532662

Trading Symbol: HTMEDIA

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: 20th (Twentieth) Annual General Meeting (AGM) of the Company via video

conferencing/ other audio-visual means

Dear Sir(s),

Please find enclosed herewith relevant page of "Hindustan" (Hindi- New Delhi Edition) and "Mint" (English- New Delhi Edition) newspapers, published on 23rd August, 2022, informing shareholders regarding the 20th AGM of the Company scheduled to be held on Thursday, 22nd September, 2022 via video conferencing/ other audio-visual means, along with other related information.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Manhar Kapoor)

whall

For HT MEDIA LIMITED

Group General Counsel & Company Secretary

Encl.: As above

मंगलवार

२३ अगस्त २०२२

कृद्धा, गैस्

NATURAL GRANULES

पेट सफा तो हर रोग दफा

विशेषज्ञों की सीधी नियुक्ति हो सकेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही एक नई श्रेणी के तहत शिक्षक संकाय के रूप में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए औपचारिक पात्रता अनिवार्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पिछले सप्ताह हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (पेशेवर प्रोफेसर) योजना के अगले महीने अधिसुचित किए जाने की संभावना है। आयोग ने निर्णय किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की संख्या मंजूर पदों के 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी।

आयोग द्वारा मंजूर इस योजना के मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला. लोक सेवा, सशस्त्र बल आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस श्रेणी में नियुक्ति के पात्र होंगे। मसौदे के अनुसार जिन लोगों ने विशिष्ट पेशों में विशेषज्ञता साबित हो या जिनका सेवा या अनुभव कम से कम 15 वर्षों का हो, विशेष रूप से वे वरिष्ठ स्तर पर हों, वे प्रोफेसर

नई दिल्ली, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के

मख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेडी ने

मुलाकात की और गोदावरी नदी पर बनने

वाली पोलावरम सिंचाई परियोजना के

लिए संशोधित लागत अनुमानों को शीघ्र

मंजूरी देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने

बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म से भी

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि

प्रधानमंत्री से हुई 40 मिनट की मुलाकात

के दौरान रेड्डी ने पोलावरम परियोजना

को लेकर चर्चा की और विजयनगरम

जिले में प्रस्तावित भोगापुरम हवाईअड्डे

के निर्माण को मंजुरी दिए जाने, चिकित्सा

महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने

और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं

के तहत राज्य सरकार को कोष जारी

मुख्यमंत्री रेड्डी पोलावरम परियोजना

किए जाने की मांग की।

ईरान से चर्चा

अधिकतम तीन वर्ष की सेवा अवधि

शुरुआत में इन पदों पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक अवधि पूरा होने के बाद संस्थानों द्वारा मुल्यांकन के बाद अवधि को बदाने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे पदों की सेवा अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं हो सकती।

चयन पर समिति करेगी अंतिम फैसला

कुलपति या निदेशक 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के लिए जाने माने विशेषज्ञों से नामांकन आमंत्रित कर सकते हैं। इन नामांकनों पर चयन समिति विचार करेगी, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के दो वरिष्ठ प्रोफेसर और एक बाहरी सदस्य शामिल होंगे।

ऑफ प्रैक्टिस श्रेणी के लिए पात्र होंगे। उनका शानदार पेशेवर अनुभव या कार्य हो, तब औपचारिक अकादिमक पात्रता अनिवार्य नहीं होगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से लागु होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि विशेषज्ञों को प्रोफेसर स्तर पर शिक्षक संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रकाशन एवं अन्य पात्रता दिशानिर्देशों से छट होगी।

छात्रों की पढ़ाई का केंद्र बनेगा भारत

देश को विदेशी छात्रों की पढाई का केंद्र बनाने की कवायद तेज हो गई है। युजीसी देश के उच्च-शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें कई तरह की रियायत दे सकता है। देश में पढ़ने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ रही है।



1711 Y71	CIOMI	यहा दा ज्याचा जाता		
पढ़ रहे विदेशी		देश	छात्र संख्या	
19-20	49,348	नेपाल	13,880	
18-19	47,427	अफगानिस्तान	4504	
17-18	46,144	बांग्लादेश	2259	
16-17	47,575	भूटान	1851	
15-16	45,424	सडान	1758	
ःभारतीय विदेश मंत्रालय–2022		स्रोतः विदेश मंत्रालय	T 2019-20	

छात्रों की संख्या । यहां से ज्यादा छात्र आए । कर्नाटक पहली पसंद

राज्य	विदेशी छात्र
कर्नाटक	10,231
उत्तर प्रदेश	5089
पंजाब	4966
महाराष्ट्र	4599
दिल्ली	2345
स्रोतः (एअ	ाईएसएचई 2019-20)

छात्रों को आकर्षित करने को ब्रांड बनेंगे संस्थान

विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थान खुद को ब्रांड की तरह पेश करेंगे। भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए यूजीसी ने भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को सुनियोजित ब्रांड निर्माण अभियान तैयार करने का सुझाव दिया है। आयोग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों के वैश्विक दर्जे और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की लिहाज से सुनियोजित ब्रांड निर्माण अभियान आवश्यक है भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को संभावित विदेशी छात्रों की प्राथमिकता को लेकर अकादिमक एवं बाजार शोध के अनरूप अलग अलग देश पर केंद्रित रिपोर्ट एवं रणनीति तैयार करने का सुझाव दिया गया है। इन्हें सरकार एवं नियामक निकायों की मदद से लागु करने की बात कही गई।

केंद्र ने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया

Ayurvedic Proprietary Medicine Safe for daily use

मॉस्को, एजेंसी। रूस ने आतंकी

संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक

आत्मघाती हमलावर को गिरफ्तार किया

है, यह भारत में सत्ताधारी दल के एक

बड़े नेता पर आतंकी हमला करने की

फिराक में था। समाचार एजेंसी

स्पुतनिक ने रूसी संघीय सुरक्षा सर्विस

एफएसबी के अधिकारियों के हवाले

से सोमवार को यह जानकारी दी। एजेंसी

के मुताबिक, पकड़ा गया आजमोव

माशाहोन्ते पैगंबर पर विवादित

अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित

इस्लामिक स्टेट के एक सरगना ने इस

साल अप्रैल से जुन के बीच तुर्की में

प्रवास के दौरान एक विदेशी नागरिक

को आत्मघाती हमलावर के तौर पर

संगठन में भर्ती किया था। तुर्की में ही

उसे आत्मघाती बम धमाके करने के

लिए प्रशिक्षण दिया था। अथॉरिटी की

टिप्पणियों से खफा था।

केंद्र सरकार ने देश में पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों का रूझान बढ़ाने के लिए वर्ष 2018 में स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया था। इस बजट से देश में पढ़ने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों को सशर्त आर्थिक सहायता भी मुहैया करानी थी।

पोलावरमपरियोजनाको लेकरपीएमसे मिले रेड्डी स्मृति ईरानी के परिवार का गोवा में

बार से संबंध नहीं

पणजी, एजेंसी। गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गैड ने एक रेस्तरां के खिलाफ दर्ज शिकायत पर सोमवार को दलीलें सुनीं। इसके बाद एंथनी डीगामा के परिवार ने दावा किया कि उनका स्मृति ईरानी के परिवार से कथित तौर पर संबद्ध 'एटऑल फूड्स एंड बेवरेजेज एलएलपी गोवा से कोई संबंध नहीं है। ईरानी ने अपनी बेटी का नाम रेस्तरां से जोड़ने के लिए कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ केस दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि ईरानी और उनकी बेटी न तो गोवा में रेस्तरां की मालिक हैं और न ही उन्होंने रेस्तरां में भोजन तथा पेय पदार्थों देने के वास्ते लाइसेंस के लिए कभी आवेदन किया।

आतंकी हरकतों पर सरकार की नजर

आईएस आतंकी रच रहा था भारत

में बड़े नेता परहमले की साजिश

आईएसआईएस और इससे संबंधित सभी संगठनों को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। वे इराक और सीरिया में कई हमले करने के लिए जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने इस पर पाबंदी लगाते हुए कहा था कि यह आतंकी संगठन युवाओं को भर्ती कर रहा है।

ओर से जारी बयान में कहा गया,

हिरासत में लिया गया आतंकी मध्य

एशियाई क्षेत्र के एक देश का मूल

निवासी है और भारत में सत्तारूढ दल

के बड़े नेता उसके निशाने पर थे। उसने

गया, वहां आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की। इसके बाद वह

सोशल मीडिया से गुमराह

गृह मंत्रालय के मुताबिक, आईएस

इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए

साइबरस्पेस पर कडी नजर रखी जा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का

संबंधित एजेंसियों की ओर से

अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए

करने की कोशिश

नेता के करीब जाकर खुद को बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। भारत आने की फिराक में था : एफएसबी के अधिकारियों ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने प्रशिक्षण के बाद आईएस सरगना के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके बाद वह रूस

नई दिल्ली, एजेंसी। पद्म पुरस्कार 2023

के लिए ऑनलाइन नामांकन और

सिफारिश करने की प्रक्रिया की शरुआत

हो गई है। इसकी अंतिम तारीख 15 सितंबर

है। केंद्रीय गह मंत्रालय ने सोमवार को एक

बयान में कहा कि आम लोग पद्म पुरस्कारों

के लिए नामांकन और सिफारिशें भेज

सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वे राष्ट्रीय

हमले को अंजाम देने के लिए भारत जाने की तैयारी कर रहा था। वीडियो में बदला लेने की बात:

आतंकी ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया, जिसका वीडियो भी रूसी एजेंसी ने जारी किया है। इस वीडियो में वह भारत से बदला लेने की बात कह रहा है। उसने कहा- मैं वहां हमला करने वाला था। वहां पैगंबर का

पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर

ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अन्य

विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट

https://mha.gov.in पर 'पुरस्कार

और पदक' शीर्षक के तहत तथा पद्म

https://padmaawards.gov.in

पर भी उपलब्ध हैं।

चाबहार के रास्ते व्यापार बढ़ाने पर

समझौतके बाद सीडीआरआई

को मिला वैश्विक दर्जा

के

सीतलवाड़ की याचिका पर

गुजरात सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के उप राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबेर से सोमवार को तेहरान में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाबहार

ईरान के साथ चर्चा हुई। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि दोनों देशों के बीच सुमद्री यात्रा के संबंध में एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

भारत सरकार ने सोमवार को

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन

(सीडीआरआई) के साथ

मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर

किए। यह समझौता सीडीआरआई

को 'एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय

कानूनी इकाई' का दर्जा प्रदान

समझौते पर विदेश मंत्रालय के

संयुक्त सचिव नूर रहमान शेख

महानिदेशक अमित प्रोथी ने

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम

न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता

तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत

याचिका पर सोमवार को गुजरात

सरकार से जवाब मांगा और मामले

पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की

सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात

दंगे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने

तारीख तय की।

और सीडीआरआई

करता है।

बंदरगाह के रास्ते व्यापार बढ़ाने पर

संशोधित लागत अनुमानों की मंजुरी की मांग की आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

परियोजना के लिए

ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की

के लिए प्रधानमंत्री से 55,548.87 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी देने की पिछले कुछ समय से मांग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री का तर्क है कि राज्य सरकार राहत और पुनर्वास को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्च है। इससे पहले, पोलावरम सिंचाई परियोजना की लागत 35,000 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना का लक्ष्य 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है।



नई दिल्ली में सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें रमृति चिहन भेंट किया। •प्रेट्र

चीन ने मांगे थे इच्छुक लोगों के नाम

बीजिंग, एजेंसी। चीन की घोषणा के अनुसार, एक्स1-वीजा उन छात्रों को जारी किया जाएगा, जो उच्च शैक्षणिक शिक्षा के लिए लंबी अवधि के अध्ययन के लिए चीन जाने का इरादा रखते हैं। इसमें वे छात्र शामिल हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले चीन में दाखिला लिया है या दाखिला लेने को प्रयासरत हैं। वे फिर चीन जा सकेंगे और पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। इससे पहले चीन ने पढाई के

लिए तुरंत लौटने के इच्छुक लोगों के नाम मांगे थे और भारत सरकार ने कई सौ छात्रों की सूची भी उन्हें सौंपी थी। श्रीलंका, पाकिस्तान, रूस और कई अन्य देशों के कुछ छात्र हाल

सीडीआरआई को संयुक्त राष्ट्र के

अनुसार अधिकारों, उन्मुक्तियों

और विशेषाधिकारों के साथ

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव पी.

के. मिश्रा और सीडीआरआई

गवर्निंग काउंसिल के सह अध्यक्ष

ने कहा कि सीडीआरआई के लिए

एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन

के रूप में मान्यता प्राप्त होना एक

आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

सीधी उड़ान का न होना बड़ी समस्या

एक बड़ी समस्या यह थी कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें नहीं हैं। दो वर्षों में पहली बार, भारतीय व्यापारियों व उनके परिवारों द्वारा नियोजित एक चार्टर्ड उड़ान हाल ही में चीनी शहर हांग्जो में पहुंची। जुलाई में चीन ने चीन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के परिवार के सदस्यों को अनुमति दी थी। उनमें से कई सामान्य टिकट दरों से कई गुना अधिक भुगतान करके तीसरे देश के मार्गों से पहुंचे। भारतीय-चीनी अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच उड़ान संचालन फिर से शुरू करने के लिए बातचीत जारी है।

के हफ्तों में चार्टर्ड उड़ानों के जरिए पहले ही चीन पहुंच चुके हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक, दाखिला लेने वाले नए छात्रों को चीन में विश्वविद्यालय की ओर से जारी मूल प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा जबकि पुराने छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिसर में वापसी का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एक हजार से अधिक पुराने भारतीय छात्रों ने अपनी पढ़ाई में फिर

से शुरू करने की इच्छा जताई है।

एचटी मीडिया लिमिटेड CIN: L22121DL2002PLC117874 **पंजीकत कार्यालय:** हिन्दस्तान टाइम्स हाउस 18-20. कस्तरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

फोन: +91-11-66561234, फैक्स: +91-11-66561270,

ई-मेलः investor@hindustantimes.com, वेबसाइटः www.htmedia.in एचटी मीडिया लिमिटेड की 20वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'')

रतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि 20वीं एजीएम के आयोजन के नोटिस में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने वे लिए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020. सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020. सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021. र 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 और सं. 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 **('एमसीए परिपञ्चों')** और भारती प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 ('सेबी परिपत्रों') के अनसरण एचटी मीडिया लिमिटेड की 20वीं एजीएम, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमे ('<mark>वीसी/ओएवीएम')</mark> के जरिए, सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना, **गुरुवार, 22 सितम्बर, 202**2

को पूर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता नाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीए का नोटिस, केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजिटर्र

जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर विलाक करके र केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ('केफिन'), यूनिटः एचटी मीडिया लिमिटेड, सेलेनियम बिलिंडग टॉवर बी, प्लॉ नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्क्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 को लिखकर अथर einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेजकर उन्हें अस्थायी रूप से पंजीकत/नवीकत कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं और अपना ई-मेल पता पंजीकत/नवीकत नहीं कि है, उस डिपॉजिटरी पर्टिसिपेंटस के पास अपने ईमेल पते पंजीकत/नवीकत कर सकते हैं, जहाँ वे अपने डिमैट

वे सदस्य जिन्होंने डिमैट रूप में शेयरों को रखा हुआ है, अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने हेतु उपर्युक्त लिंक क भी प्रयोग कर सकते हैं या 20वीं एजीएम के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने वे सीमित प्रयोजन हेतु einward.ris@kfintech.com में ईमेल अनुरोध भेजें।

कम्पनी अपने सदस्यों को 20वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (यानी रिमोर ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रद कर रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने हेतु अनुदेश और ई-वोटिंग का प्रक्रिया (जिसमें वह तरीका शामिल है जिसमें वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट दे सकते हैं), 20वीं एजीएम के नोटिस का भाग होगा। सदस्य केवर

वेबसाइट <u>www.htmedia.in;</u> स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> में और केफिन की वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.co</u>n

दिनांक: 22 अगस्त, 2022 स्थान: नई दिल्ली

(ग्रुप जनरल काउंसल एवं कम्पनी सेकेटरी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऑस्टेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर के साथ कौशल विकास, अनसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को और

संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य समृह गठित करने का ऐलान किया। इस मौके पर प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों को भारत में अपने परिसर स्थापित

करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्रों के वीजा के लंबित मद्दा भी उठाया। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि संबंधों को आगे बढ़ाने का यह प्रभावी मंच है। उन्होंने आयुर्वेद, कृषि जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अनुसंधान बढ़ाने तथा कौशल प्रमाणन और खन्न, लॉजिस्टिक (साजो-समान) प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर जोर दिया।

निविदा सूचना

टेंडर नोटिस संख्या–42225082A दिनांक-20.08.2022 इलेक्ट्रानिक निविदा ई प्रणाली के अन्तर्गत मदं की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण। भारत के राष्ट्रपति की ओर से सहायक सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, डीजल डिपो शकरबर्स्त . दिल्ली—110034 द्वारा इच्छक फर्मों से निम्नलिखित मदो के लिए ई—निविदा आमंत्रित की जाती है:—

स0	संख्या		मात्रा	
01	42225082A	इलेक्ट्रिकल, क्यूबिकल्स, ट्रैक्शन कन्वर्टर्स आदि	92 सेट	09.09.2022
		के लिए आरडीएसओ स्पेक नंबर आरडीएसओ 🖊		
		पीई / स्पेक / एसी / 0192- 2018		
		(संशोधन–1) के अनुसार निर्दिष्ट तकनीकी		
		आवश्यकता के अनुसार एयरोसोल आधारित		
		फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम की आपूर्ति		
		और स्थापना। "वंदे भारत एक्सप्रेस को		
		आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित स्रोतों के तहत		
		अनुमोदित फर्मों के माध्यम से निष्पादित किया		
		जाएगा:- एक सेट में 02 नग सेंसर के साथ 100		
		ग्राम के 2 कनस्तर होंगे, जिसमें वायरिंग, ब्रैकेट		
		या सफल स्थापना और कमीशनिंग के लिए		
		आवश्यक कोई अन्य सामान शामिल होगा।		

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण, उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट, दिल्ली–6 निम्नलिखित कार्य के लिए दो पैकेट प्रणाली के अंतर्गत

1.	कार्य का नाम व स्थान	उत्तर रेलवे के दिल्ली मण्डल के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का विकास/पुनः विकास/प्रमुख उन्नयन	
2.	अनुमानित / निदेशात्मक परियोजना लागत	रुपये 318.44 करोड़	
3.	कार्य पूरा करने की अवधि	30 माह	
4.	जमा की जाने वाली जमानती राशि	रुपये 1,59,22,100.00	
5	ई-निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खुलने की तिथि और समय	निविदा 11.30 बजे दिनांक 28.09.2022 तक आई आर ई पी एस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती हैं। बोली लगाने वाले ईं—निविदा में भाग ले सकते हैं, जिसकी तकनीकी सह वाणिज्यिक बोली 28.09.2022 को 11.30 बजे खोली जायेगी। पात्र निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली तदनुसार खोली जायेगी। जिसकी समय और तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।	
6.	बोली पूर्व सम्मेलन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, प्रधान कार्यालय, उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट, दिल्ली में दिनांक 02.09,2022 को 11:30 बजे बोली पूर्व सम्मेलन	

वेबसाइट www.ireps.gov.in पर 20.08.2022 से

28.09.2022 तक उपलब्ध होगी

सं. 74—डब्लु / 4 / 1 / 457 / डब्लु.ए / ए.सी रोड— । । दिनांक 20.08.2022

हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बुद्ध मार्ग, पटना-800001 फोन: +91-612-222-3434, फैक्स: +91-612-222-1545 कारपोरेट कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस (द्वितीय तल) 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 फोन: +91 11 6656 1234 ई-मेलः <u>investor@hindustantimes.com</u>, वेबसाइटः <u>www.hmvl.in</u> CIN: L21090BR1918PLC000013 हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड की

वार्षिक आम बैठक (12वीं पोस्ट-आईपीओ) (''एजीएम'')

एतदुद्वारा नोटिस दिया जाता है कि (12वीं पोस्ट-आईपीओ) एजीएम के आयोजन के नोटिस में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के लिए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपट्ट सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 और सं. 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 **('एमसीए परिपत्रों')** और भारतीय बोर्ड द्वारा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 ('सेबी परिपत्रों') के अनुसरण में, हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड की (12वीं पोस्ट-आईपीओ) एजीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के जरिए, . . . , सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना, <mark>बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को पूर्वा</mark>. 11.00

बजे (भा.मा.स.). आयोजित की जाएगी। उपर्यक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और सेबी (सचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनसरण में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम का नोटिस, केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंटस में पंजीकृत हैं।

ईमेल पता पंजीकृत करने/नवीकृत करने का तरीकाः

• जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी में अपना ई-मेल पता पंजीकत/नवीकत नहीं किया है, <u>https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx</u> पर क्लिक करके या केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ('केफिन'), यूनिटः हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद-500032 को लिखकर अथवा einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेजकर उन्हें अस्थायी रूप से पंजीकृत/नवीकृत कर

• जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं और अपना ई-मेल पता पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, उस डिपॉज़िटरी पर्टिसिपेंट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकत/नवीकत कर सकते हैं, जहाँ वे अपने डिमैट खाते रखते हैं।

वे सदस्य जिन्होंने डिमैट रूप में शेयरों को रखा हुआ है, अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने हेतु उपर्यक्त लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं या (12वीं पोस्ट-आईपीओ) एजीएम के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित प्रयोजन हेतु einward.ris@kfintech.com में ईमेल अनुरोध भेजें।

कम्पनी अपने सदस्यों को (12वीं पोस्ट-आईपीओ) एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (यानी रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने हेतु अनुदेश और ई-वोटिंग का प्रक्रिया (जिसमें वह तरीका शामिल है जिसमें वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है, ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट दे सकते हैं), (12वीं पोस्ट-आईपीओ) एजीएम के नोटिस का भाग होगा। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो तथा भाग ले सकते हैं।

(12वीं पोस्ट-आईपीओ) एजीएम के आयोजन का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hmvl.in;</u> स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> में और केफिन की वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.com</u> में भी उपलब्ध होंगे।

दिनांकः 22 अगस्त, 2022

स्थानः नई दिल्ली

कृते हिन्द्स्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड पुमित कुमार चेलारमानी (कम्पनी सचिव)

के वास्ते कथित तौर पर सबूत गढ़ने के लिए जून में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीतलवाड़ की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका पर तीन अगस्त को राज्य

जमानत अर्जी पर मांगा जवाब

सरकार को नोटिस जारी किया था और सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी। इससे पहले 30 जुलाई को अहमदाबाद में एक कोर्ट ने मामले में सीतलवाड़ व पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकृमार की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वाले लोगों को संदेश जाएगा कि कोई भी आरोप लगा सकता है। और सजा से बच सकता है।

वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो तथा भाग ले सकते हैं। 20वीं एजीएम के आयोजन का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी की कृते एचटी मीडिया लिमिटे

प्रधान ने की ऑस्ट्रेलिया से अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने की वकालत

मजबूत बनाने पर चर्चा की।

संक्षिप्त विवरण विवरण अंतिम तिथि

01	42225082A	इलेक्ट्रिकल, क्यूबिकल्स, ट्रैक्शन कन्चर्टर्स आदि के लिए आरडीएसओ स्पेक नंबर आरडीएसओ / पीई / स्पेक / एसी / 0192— 2018 (संशोधन—1) के अनुसार निर्देष्ट तकनीकी आवश्यकता के अनुसार एयरोसोल आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम की आधारित	92 सेट	09.09.2022
		जीयर छिटक्शन एड सप्रशन सिस्टम की आयूत और स्थापना। "वंदे भारत एक्सप्रेस को आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित स्रोतों के तहत		
		अनुमोदित फर्मों के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा:– एक सेट में 02 नग सेंसर के साथ 100		
		ग्राम के 2 कनस्तर होंगे, जिसमें वायरिंग, ब्रैकेट या सफल स्थापना और कमीशनिंग के लिए		
		आवश्यक कोई अन्य सामान शामिल होगा।		
	नेविदा शर्ते— 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेब साइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी जा			
उकर्त	1 😤 1			

2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

सूचना तथा निविदा

मनहर कप

ई-निविदा (ई-रिवर्स नीलामी) आमंत्रित करते है :-

			स्टेशन का विकास/पुनः विकास/प्रमुख उन्नयन
	2.	अनुमानित / निदेशात्मक परियोजना लागत	रुपये 318.44 करोड़
	3.	कार्य पूरा करने की अवधि	30 माह
	4.	जमा की जाने वाली जमानती राशि	रुपये 1,59,22,100.00
	5	ई—निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खुलने की तिथि और समय	निविदा 11.30 बजे दिनांक 28.09.2022 तक आई आर ई पी एस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती है। बोली लगाने वाले ई—निविदा में भाग ले सकते हैं, जिसकी तकनीकी सह वाणिज्यिक बोली 28.09.2022 को 11.30 बजे खोली जायेगी। पात्र निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली तदनुसार खोली जायेगी। जिसकी समय और तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।
	6.	बोली पूर्व सम्मेलन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, प्रधान कार्यालय, उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट, दिल्ली में दिनांक 02.09.2022 को 11:30 बजे बोली पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
	7.	विस्तृत ई–निविदा	उपर्युक्त निविदा दस्तावेज आई आर ई पी एस की







Singtel readies \$300 mn sale of cyber security arm Trustwave

Singapore Telecommunications is moving forward with a planned sale of its cyber security business Trustwave Holdings Inc. that could raise about \$200 million to \$300 million, people familiar with the matter said. The Singapore operator has been speaking with financial advisers as it prepares for a potential divestment of the Chicago-based unit, the people said, asking not to be identified because the matter is private.

China's PBOC calls on lenders to stabilize credit growth



China's central bank called on major financial institutions to take the lead in keeping credit growth stable with the nation's economy at a critical moment. Financial institutions, especially major state-owned banks, should increase loan issuance to the real economy, the People's Bank of China said in a statement late on Monday following a meeting chaired by governor Yi Gang. They should also improve the credit support for small- and micro-enterprises, green development, scientific and technological innovation and other fields, according to the statement.

Ukraine bans Independence Day rallies for fear of Russian strikes

Kyiv: Ukraine's capital Kyiv banned public celebrations this week to commemorate independence from Russian-dominated Soviet rule, citing a heightened threat of Russian attack in a war that the UN said on Monday has killed more than 5,500 civilians. Near frontlines in the south of the country, Ukraine said Russia fired rockets into several southern Ukrainian towns north and west of Europe's largest nuclear power plant, captured by Russiaa shortly after they invaded Ukraine in February.

Vodafone agrees to sell Hungary unit for 1.8 billion euros

British telecoms group Vodafone agreed on Monday to sell its Hungarian division to local peer 4iG and state-owned holding company Corvinus Zrt for 1.8 billion euros (\$1.8 billion). The London-listed giant added in a statement that the proposed sale would create Hungary's second largest fixed-line and mobile telecoms operator.

Energy panic engulfs Europe as gas prices smash records

Benchmark gas futures rose 21%, while German power surged to above 700 euros a MW-hour for the first time

Bloomberg

feedback@livemint.com

uropean natural gas surged to about 15 times the average summer time price and power smashed through records as the threat of Russian supply cuts ripped through the market and threatened to push the German economy into recession.

Benchmark gas futures rose as much as 21%, while German power surged to above 700 euros a megawatt-hour for the first time. The key Nord Stream gas pipeline will stop for three days of maintenance on 31 August, again raising concerns that the link won't return to service as planned after the works. Europe has been on tenterhooks about shipments through the link for weeks, with flows resuming only at very low levels after it was shut for works last

European authorities have repeatedly raised the possibility of a complete shut down of Russian supplies as the Kremlin retaliates for sanctions imposed because of its war in Ukraine. That would jeopardize the region's plan to stash away enough gas for the winter and put huge stress on major economies, while households and industries would be left with large bills.

"The catastrophe is already there," Thierry Bros, a professor in international energy at Sciences Poin Paris, said. "I think the major question is when EU leaders are going to wake

Germany warned Moscow could further reduce gas supplies, and reiterated a call to conserve energy. "We have a very critical winter right in front of us," German Economy Minister Robert Habeck told public broadcaster ZDF in Montreal, during a visit



Germany warned Moscow could further reduce gas supplies, and reiterated a call to conserve energy.

to Canada with Chancellor Olaf Scholz. "We must expect Putin to further reduce gas."

On Friday, Gazprom said works are needed in the only functioning turbine that can pump gas into Nord Stream. The pipeline has been operating at only 20% capacity for weeks and European politicians insist the curbs are politically motivated. Russia's Gazprom PJSC said volumes would return to that level following the latest shutdown.

"Whether the reasoning is true or not, the outcome drives a European gas market that tightens further, and one that is left reliant on demand curtailments to find itself in balance," said Biraj Borkhataria, an analyst at RBC Capital Markets. "The market may disregard Gazprom's comments and start to consider whether the pipeline may not return to service, or at the very least may be delayed for any given reason."

The Dutch front-month contract, the European benchmark, was 17% higher at 286.06 euros a megawatthour at 3:22 p.m. in Amsterdam. It rose for a fifth straight week on Friday, the longest run this year. The UK equivalent surged 23% on Monday.

Benchmark German vear-ahead power rose as much as 27% to a record 710 euros per megawatt-hour, while the French contract jumped 16% to 840 euros. Coal futures also hit unprecedented levels. The near-term electricity market's tightness is being compounded by nuclear reactor availability in France at near the lowest in years.

Over the weekend, German leaders said the country may struggle to replace dwindling gas supplies from Russia. The government is targeting a 20% reduction in consumption While the country is one of the worst hit by Moscow's cuts with the economy on the bring of a recession, the energy crisis has reverberated through Europe.

Meanwhile, Russia's crude shipments surged last week, recovering almost all of the previous slump. Seaborne exports to European buyers rose to the highest level since April, as some refiners continue to process barrels, even after Moscow's invasion of Ukraine. Total flows rose to 3.41

million barrels a day in the period to 19 August, vessel-tracking data monitored by Bloomberg show. That compares with 3.24 million previously, using a four-week moving average to smooth out variability in the figures.

All of the increase was to Europe, with shipments to customers in the Mediterranean, northern Europe and the Black Sea region all rising. Exports to Mediterranean countries rose by 140,000 barrels a day, the biggest jump. A European Union ban $on seaborne \, imports \, of \, Russian \, crude$ is due to come into effect in December. Moscow is also developing new markets for its crude. A third tanker is heading to cash-strapped Sri Lanka, and two vessels have now discharged at El Hamra on Egypt's Mediterranean coast after Russian Foreign Minister Sergei Lavrov visited the country last month. Afghanistan's Taliban regime is interested in buying around 1 million barrels of crude oil from Russia, according to RIA Novosti.

Based on current destinations, the average flow of Russian crude to Asia continued to slide, to 1.71 million barrels a day in the four weeks to 19 August, from more than 2.1 million barrels a day in April and May. While India is maintaining its appetite for Russian oil, its refiners are receiving smaller discounts than they were a few months ago.

Inflows to the Kremlin's war chest from crude export duty remain higher than they were before the war, with four-week average income rebounding to \$175 million, in the period to 19 August. The volume shipped from Russia to northern Europe in the four weeks to 19 August edged higher, averaging 398,000 barrels a day. Shipments to storage tanks in Rotterdam dominate the

हिन्दुस्तान

Hindustan Media Ventures Limited Registered Office: Budh Marg, Patna - 800003 Ph.: +91 612 222 3434; Fax: +91 612 222 1545 Corporate Office: Hindustan Times House (2nd Floor) 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001 Ph.: +91 11 6656 1234, E-mail: investor@hindustantimes.com; Website: www.hmvl.ir CIN: L21090BR1918PLC000013

ANNUAL GENERAL MEETING (12TH POST - IPO) ("AGM") OF HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

Notice is hereby given that the (12th post- IPO) AGM of Hindustan Media

Ventures Limited will be held on Wednesday, 21st September, 2022 at 11:00 AM (IST) through Video-Conferencing/Other Audio-Visual Means ('VC/ OAVM'), without the physical presence of the Members at a common venue pursuant to General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020. No. 17/2020 dated 13th April 2020 No. 20/2020 dated 5th May 2020 No. 02/2021 dated 13th Januar 2021, No. 21/2021 dated 14th December 2021 and No. 02/2022 dated 5th May 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), to transact the business set out in Notice convening (12th post- IPO)

In compliance with the abovementioned MCA & SEBI Circulars and the relevan provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository **Participants**

Manner of registering/updating email address:

- Members who hold shares in physical mode and have not registered/updated their e-mail address with the Company, can temporarily register/update the same by clicking on https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx or by writing to KFin Technologies Limited ('KFin') Unit: Hindustan Media Ventures Limited, Selenium Building Tower B Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal Hyderabad- 500032 or by sending email to einward.ris@kfintech.com.
- Members holding shares in dematerialised mode and have not registered updated their e-mail address, can register/update their email address with the Depository Participant(s) where they maintain their dema

Members holding shares in demat form can also use the aforesaid link to register their e-mail address or sending email request at <u>e<mark>inward.ris@kfintech.com</u> fo</mark>i</u> the **limited purpose** of receiving the Notice of (12th post- IPO) AGM and Annua

The Company is providing the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means (i.e., remote e-voting and e-voting during the AGM) on the resolutions set out in the Notice of (12th post- IPO) AGM. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the process of e-voting (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), will form part of the Notice of (12th post-IPO) AGM. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Notice convening the (12th post-IPO) AGM and Annual Report for FY 2021-22 will also be available on the website of the Company at **www.hmvl.in**, websites of the stock exchanges where shares of the Company are listed viz. BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of KFin at https://evoting.kfintech.com n due course.

For Hindustan Media Ventures Limited Date: August 22, 2022 Pumit Kumar Chellaramani Place: New Delhi (Company Secretary) **HT Media Limited**

Registered Office: Hindustan Times House, 18-20 Kasturba Gandhi Marg. New Delhi- 110 001 **Ph.:** +91-11-66561234; **Fax:** +91-11-66561270 E-mail: investor@hindustantimes.com; website: www.htmedia.in 20^{TH} Annual General Meeting ("AGM") of HT Media Limited

otice is hereby given that the 20th AGM of HT Media Limited will be held on Thursday. 22^{ml} September, 2022 at 11:00 AM (IST) through Video-Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/ OAVM'), without the physical presence of the Members at common venue, pursuant to General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, No. 17/2020 dated 13th April 2020, No. 20/2020 dated 5th May 2020, No. 02/2021 dated 3th January 2021, No. 21/2021 dated 14th December 2021 and No. 02/2022 dated 5th May 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (**'MCA Circulars')** and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') o transact the business set out in Notice convening 20th AGM.

In compliance with the abovementioned MCA & SEBI Circulars and the relevan rovisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure equirements) Regulations, 2015, the Notice of the AGM along with the Annual Repor 2021-22 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresse are registered with the Company/Depository Participants.

Manner of registering/updating email address:

- Members who hold shares in physical mode and have not registered/updated the e-mail address with the Company, can temporarily register/update the same by clicking on https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg. aspx or by writing to KFin Technologies Limited ('KFin'). Unit: HT Media Limited. Selenium Building Tower B, Plot No. 31 - 32, Financial District, Nanakramgud Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032 or by sending email to einward.ris@
- Members holding shares in dematerialised mode and have not registered/updated their e-mail address, can register/update their email address with the Depositor Participant(s) where they maintain their demat accounts.

Members holding shares in demat form can also use the aforesaid link to register the -mail address or sending email request at einward.ris@kfintech.com for the limite urpose of receiving the Notice of 20th AGM and Annual Report for FY 2021-22.

The Company is providing the facility to the Members to exercise their right to vote by lectronic means (i.e. remote e-voting and e-voting during the AGM) on the resolution set out in the Notice of 20th AGM. The instructions for joining the AGM through VC/ DAVM and the process of e-voting (including the manner in which Members holding hares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), will form part of the Notice of 20th AGM. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

otice convening the 20th AGM and Annual Report for FY 2021-22 will also be available on the website of the Company at www.htmedia.in, websites of the stock exchanges where shares of the Company are listed viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and website of KFin a ttps://evoting.kfintech.com in due course.

Date: August 22, 2022

Place: New Delhi

Manhar Kapoor (Group General Counsel & Company Secretary)

For HT Media Limited



Where others see a paywall, leaders see opportunity.

Subscribe Now

As nutritious as soup. And just as easy to digest.

To subscribe, scan this code or login:

Covers big economic issues

Complimentary for limited time

A Weekly newsletter by Vivek Kaul mint Focuses on impact on daily lives

Download the Mint app now. Google Play Congle Play



Scan the QR code or visit livemint.com

Business news that supports new-age leadership





